

3. कर चोरी को अवैध क्यों माना जाता है? कर नियोजन के एक उपकरण के रूप में विभिन्न कटौती और छूट पर चर्चा कीजिए।
4. बीमा क्या है और यह क्यों आवश्यक है? व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा बीमा कवरेज की मांग करने के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए।
5. कर नियोजन के संदर्भ में सेवानिवृत्ति नियोजन के महत्व की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि प्रभावी कर नियोजन व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति बचत को अधिकतम करने में कैसे मदद कर सकता है।
6. किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
 - (क) धन का समय मूल्य
 - (ख) जोखिम और प्रतिफल
 - (ग) मुद्रा डेरिवेटिव
 - (घ) भारत में कमोडिटी बाजार
7. पेंशन योजनाएँ क्या हैं? भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं और उनकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
8. अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अवसरों से आप क्या समझते हैं? निवेशकों के लिए उपलब्ध किसी चार सामान्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय निवेश विकल्पों पर चर्चा कीजिए।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3852A

J

Unique Paper Code : 2416000004

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : Common Prog Group (UGCF)

Semester : II/IV/VI

Duration : 2 Hours

Maximum Marks : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any **six** questions out of **eight**.
3. **All** questions carry equal marks
4. Answers may be written either in **English or Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. आठ प्रश्नों में से किन्हीं छह प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
3. सभी प्रश्न के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।
1. Personal financial planning helps individuals manage their income, expenses, savings, and investments effectively."In the light of this statement, explain the importance of personal financial planning and outline its main components.
2. What is diversification in the context of finance? Explain how diversification helps in reducing investment risk with suitable examples.
3. Why is tax evasion considered illegal? Discuss the various deductions and exemptions as a tool of tax planning.
4. What is insurance and why is it necessary? Explain the key reasons individuals and businesses seek insurance coverage.
5. Explain the importance of retirement planning in the context of tax planning. Discuss how effective tax planning can help individuals maximize their retirement savings.

6. Write a short note on any two:
 - (a) Time Value of Money
 - (b) Risk and Return
 - (c) Currency Derivatives
 - (d) Commodity Market in India
7. What are pension plans? Explain the different types of pensions plans available in India and their key features.
8. What do you understand by international investment avenues? Discuss any four common types of international investment options available to investors.
1. “व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन व्यक्तियों को उनकी आय, व्यय, बचत और निवेश को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है।” इस कथन के आलोक में, व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन के महत्व की व्याख्या कीजिए और इसके मुख्य घटकों की रूपरेखा तैयार कीजिए।
2. वित्त के संदर्भ में विविधीकरण क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ बताइये कि विविधीकरण निवेश जोखिम को कम करने में कैसे मदद करता है।